



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3692]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2018/भाद्र 23, 1940

No. 3692]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018/BHADRA 23, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4855(अ).**—केन्द्रीय सरकार, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2018 का 38) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 सितम्बर, 2018 को “राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण” नाम से ज्ञात राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन की तारीख के रूप में नियत करती है।

[फा.सं. 11-100/2015-एफसी (खंड III)]

दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2018

**S.O. 4855(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2018), the Central Government hereby appoints the 30<sup>th</sup> day of September, 2018, as the date of constitution of a National Authority to be called the “National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority”.

[F. No. 11-100/2015-FC (Vol. III)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forest

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2018

**का.आ. 4856 (अ).—** केन्द्रीय सरकार, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2018 का 38) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 सितम्बर, 2018 को "राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण" नाम से ज्ञात राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख के रूप में निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियत करती है।

क्र.सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	आन्ध्र प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	आन्ध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	असम
4.	बिहार प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	बिहार
5.	छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	छत्तीसगढ़
6.	गोवा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	गोवा
7.	गुजरात प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	गुजरात
8.	हरियाणा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	हरियाणा
9.	हिमाचल प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश
10.	झारखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	झारखंड
11.	कर्नाटक प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	कर्नाटक
12.	केरल प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	केरल
13.	मध्य प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	मध्य प्रदेश
14.	महाराष्ट्र प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	महाराष्ट्र
15.	मणिपुर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	मणिपुर
16.	मेघालय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	मेघालय
17.	मिजोरम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	मिजोरम
18.	ओडिशा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	ओडिशा
19.	पंजाब प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	पंजाब
20.	राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	राजस्थान
21.	सिक्किम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	सिक्किम
22.	तमिलनाडु प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	तमिलनाडु
23.	तेलंगाना प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	तेलंगाना
24.	त्रिपुरा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	त्रिपुरा
25.	उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	उत्तर प्रदेश
26.	उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	उत्तराखंड
27.	पश्चिम बंगाल प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	पश्चिम बंगाल

28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
29.	चंडीगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	चंडीगढ़
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
31.	दादरा नगर हवेली प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	दादरा नगर हवेली

[फा.सं. 11-100/2015-एफसी (खंड III)]

दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2018

**S.O. 4856(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2018), the Central Government hereby appoints the 30th day of September, 2018, as the date of constitution of State Authorities, to be called the “State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority” in the following States and Union territories :—

S.N.	Name of State Authorities	States /Union territories
(1)	(2)	(3)
1	The Andhra Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Andhra Pradesh
2	The Arunachal Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Arunachal Pradesh
3	The Assam Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Assam
4	The Bihar Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Bihar
5	The Chhattisgarh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Chhattisgarh
6	The Goa Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Goa
7	The Gujarat Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Gujarat
8	The Haryana Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Haryana
9	The Himachal Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Himachal Pradesh
10	The Jharkhand Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Jharkhand
11	The Karnataka Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Karnataka
12	The Kerala Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority -Kerala	Kerala
13	The Madhya Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Madhya Pradesh
14	The Maharashtra Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Maharashtra
15	The Manipur Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Manipur

16	The Meghalaya Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Meghalaya
17	The Mizoram Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Mizoram
18	The Odisha Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Odisha
19	The Punjab Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Punjab
20	The Rajasthan Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Rajasthan
21	The Sikkim Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Sikkim
22	The Tamil Nadu Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Tamil Nadu
23	The Telangana Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Telangana
24	The Tripura Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Tripura
25	The Uttar Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Uttar Pradesh
26	The Uttarakhand Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Uttarakhand
27	The West Bengal Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	West Bengal
28	The Andaman and Nicobar Islands Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Andaman and Nicobar Islands
29	The Chandigarh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Chandigarh
30	The National Capital Territory Delhi Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	National Capital Territory Delhi
31	The Dadra Nagar Haveli Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Dadra Nagar Haveli

[F. No. 11-100/2015-FC (Vol. III)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forest